



UP PET MOCK TEST



MATHS

30 DAYS

महाभ्यारस

DAY-12



LIVE | 08:30 PM


By Abhishek Mahendras

What is the respective ratio between the number of female students from Karnataka to the number of female students from Kerala ?


कर्नाटक से महिला छात्रों की संख्या का केरल से महिला छात्रों की संख्या से संबंधित अनुपात क्या है?

(a) 2 : 7 (b) 2 : 5 (c) 2 : 3 (d) 3 : 7 (e) None of these

Percentage of students from different states attending a national seminar
Total Students: 8000



Percentage of female students from different states attending a national seminar
Total Students: 3500




What is the total number of male students from Maharashtra and Madhya Pradesh together ?


महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से मिलाकर पुरुष छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 2175 (b) 2725 (c) 2527 (d) 2275 (e) None of these

Percentage of students from different states attending a national seminar
Total Students: 8000



Percentage of female students from different states attending a national seminar
Total Students: 3500




What is the respective ratio between the number of male students from Assam and the number of male students from Madhya Pradesh ?


असम के पुरुष छात्रों की संख्या और मध्य प्रदेश के पुरुष छात्रों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात क्या है?

- (a) 197: 134
- (b) 197: 135
- (c) 197: 133
- (d) 199: 133
- (e) None of these

Percentage of students from different states attending a national seminar
Total Students: 8000



Percentage of female students from different states attending a national seminar
Total Students: 3500




What is the respective ratio between the number of female students from Karnataka and the number of male students from the same state ?


कर्नाटक से महिला छात्रों की संख्या और उसी राज्य से पुरुष छात्रों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात क्या है?

- (a) 35: 69 (b) 32: 69 (c) 38: 69 (d) 35: 67 (e) None of these

Percentage of students from different states attending a national seminar
Total Students: 8000



Percentage of female students from different states attending a national seminar
Total Students: 3500




The number of female students from Assam are approximately what percent of the male students from the same state ?


असम से महिला छात्रों की संख्या उसी राज्य के पुरुष छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत है?

- (a) 14 (b) 28 (c) 96 (d) 66 (e) 46

Percentage of students from different states attending a national seminar
Total Students: 8000



Percentage of female students from different states attending a national seminar
Total Students: 3500




What is the ratio of the number of appeared aspirants from States C and E together to that of the appeared aspirants from States A and F together?


राज्यों C और E से मिलाकर परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का राज्यों A और F से मिलाकर परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात कितना है?

(a) 17:33 (b) 11:13 (c) 13:27 (d) 17:27 (e) None of these

**Total Appeared
Students =45000**



**Total Qualified
Students =9000**




What is the difference in the number of qualified aspirants in states D and G?


राज्य D और G में योग्य उम्मीदवारों की संख्या में कितना अंतर है?

(a) 690 (b) 670 (c) 780 (d) 720 (e) None of these

**Total Appeared
Students =45000**



**Total Qualified
Students =9000**




What is the percentage of qualified aspirants with respect to appeared aspirants from states B and C taken together?


राज्यों B और C से एक साथ सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्य उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है?

- (a) 23.11 (b) 24.21 (c) 21.24 (d) 23 (e) None of these

**Total Appeared
Students =45000**



**Total Qualified
Students =9000**




What is the ratio between number of candidates qualified from States B and D together and the number of candidates appeared from States 'C' respectively?


राज्य B और D से मिलाकर उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और राज्यों 'C' से परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है?

- (a) 8:37 (b) 11:12 (c) 37 : 40 (d) 7 : 37 (e) None of the above

**Total Appeared
Students =45000**



**Total Qualified
Students =9000**




In which state the percentage of qualified aspirants to appeared aspirants is the least?

किस राज्य में योग्य उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे कम है?

- (a) C (b) F (c) D (d) E (e) G

**Total Appeared
Students =45000**



**Total Qualified
Students =9000**

